



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य जनपद कानपुर देहात

दिनांक-22.07.2022

थाना मूसानगर पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध/दुष्कर्म में वांछित अभियुक्त प्रेमशंकर पुत्र मौजीलाल निवासी ग्राम रायपुर छांजा थाना साढ़ कानपुर आउटर को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के मार्गदर्शन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर के कुशल नेतृत्व में थाना मूसानगर पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध/दुष्कर्म में वांछित अभियुक्त प्रेमशंकर पुत्र मौजीलाल निवासी ग्राम रायपुर छांजा थाना साढ़ कानपुर आउटर उम्र करीब 25 वर्ष को दिनांक 22.07.2022 को समय 08:50 बजे थाना मूसानगर क्षेत्र के बीआरडी महाविद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया है।

ज्ञात हो कि दिनांक 14.04.2022 को थाना मूसानगर क्षेत्र के ग्राम विजयीपुर में नाबालिग किशोरी को अभियुक्तों द्वारा मोटरसाइकिल में जबरन बैठाकर अपने साथ ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पीड़िता के भाई दीपक पुत्र कल्लू निवासी ग्राम विजयीपुर थाना मूसानगर कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मूसानगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गम्भीरता को देखते हुये घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात द्वारा टीमों का गठन करते हुए प्रभारी थाना मूसानगर को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में पुलिस टीम के अथक प्रयासोंपरांत घटना में नामजद अभियुक्त प्रेमशंकर पुत्र मौजीलाल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रेमशंकर पुत्र मौजीलाल निवासी ग्राम रायपुर छांजा थाना साढ़ कानपुर आउटर उम्र करीब 25 वर्ष

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान-

1. मु0अ0स0-202/20 धारा 363/366/376(3)भा0द0वि0व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना मूसानगर का0दे0

2. मु0अ0सं0 53/22 धारा 363/366/376 भादंवि0 व धारा 5(j)(ii)/6 पोक्सो एक्ट थाना मूसानगर का0दे0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष महेन्द्र सिंह थाना मूसानगर कानपुर देहात

2. उ0नि0 जसवीर सिंह थाना मूसानगर कानपुर देहात

3. का0 177 रोहिताश थाना मूसानगर कानपुर देहात